

VARUN BEVERAGES LIMICED



Corporate Off: Plot No.31, Institutional Area, Sec.-44, Gurgaon, Haryana-122002 (India)
Ph.: +91-124-4643100-500 • Fax: +91-124-4643303/04 E-mail: info@rjcorp.in • Visit us at: www.varunpepsi.com
CIN No.: L74899DL1995PLC069839

March 13, 2021

To

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Block G,C/1, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400 051

Email: cmlist@nse.co.in

Symbol: VBL

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Email: corp.relations@bseindia.com

Security Code: 540180

Sub:

Newspaper Advertisement regarding Notice of 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, Book Closure and E-voting information

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulations 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively, copies of the newspaper advertisement published in "Business Standard" in English and Hindi language on March 13, 2021 regarding Notice of 26th AGM of the Company scheduled to be held on Wednesday, April 7, 2021 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means facility, Book Closure and E-voting information are enclosed herewith. The same is also available on website of the Company at www.varunpepsi.com.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

For Varun Beverages Limited

Ravi Batra

Chief Risk Officer & Group Company Secretary

Encl.: As above

SC PULLS UP GOA: AGREES TO EXAMINE VALIDITY OF 1991 LAW

Govt officials can't work as state poll commissioners: SC

Says state polls must be headed by independent persons

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 12 March

n a significant verdict, the Supreme Court Friday held that a person employed with L the government cannot work as state election commissioners (SECs) and came down on the Goa government for giving its law secretary the additional charge of the SEC.

The apex court said the state poll panels shall be headed by independent persons who do not hold any office under the state government and if they hold any such offices, then they have to resign before taking charge of SEC.

The top court said election commissioners have to be independent persons and no state can appoint a person who holds any office with the government.

A bench headed by Justice R F Nariman also directed the Goa state election body to issue the notification for the local body polls within 10 days from today and complete the election process by April 30.

"Under the Constitutional mandate, it is the duty of the state to not interfere with the functioning of the state election commission," the bench held in its judgement delivered on the appeal of the state government. The



judgement came on an appeal by the Goa government against the high court's ruling on panchayat polls.

The case pertained to local body elections in Goa in which reservation of wards for woman and Scheduled Castes, Scheduled Tribes were allegedly not carried out in terms of state law The Bombay High Court had struck down the notice of state poll panel for reservation of wards.

The Goa government, in its appeal, had said that High Court could not have interfered with the poll process.

...Sends notice to Centre over plea against religious law

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 12 March

The Supreme Court sought the Centre's response on Friday to a plea filed before it challenging the validity of certain provisions of a 1991 law, which prohibit the filing of a lawsuit to reclaim a place of worship or seek a change in its character from what prevailed on August 15, 1947.

The petition alleges that the 1991-law creates an "arbitrary and irrational retrospective cut-off date" of August 15, 1947 for maintaining the character of the places of worship or pilgrimage against encroachment done by "fundamentalist-barbaric invaders and law-breakers".

A Bench of Chief Justice SA Bobde and Justice AS Bopanna issued notice to the Centre on the plea filed by BJP leader and advocate Ashwini Upadhyay, seeking that sections 2, 3, 4 of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 be set aside on grounds including that these provisions take away the right of a judicial remedy to reclaim a place of worship of any person or a religious group.

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND Notice is hereby given in pursuance to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has fixed Monday, March 22, 2021, as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of Interim Dividend @₹8.00 /- per equity share (subject to deduction of TDS) on the face value of the paidup equity shares of ₹10/- each for the FY 2020-21, as declared by the Board of Directors, in its Meeting held on Friday, March 12, 2021.

Further the said Interim Dividend will be paid/ dispatched on or before March 31, 2021 to those Shareholders whose name appear (a) as Beneficial Owners in the statement (s) to be furnished by Depository (les) as at the close of business hours on March 22, 2021, in respect of shares held in electronic form; and (b) as Members in Register of Members on March 22, 2021, in respect of physical shares.

Pursuant to notification of Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020, Accordingly, the company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit Form 15G/H and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their Depository Participant(s) or with the Company at investorsgrievance@pfcindia.com/R&TA at einward.ris@kfintech.com.

For Power Finance Corporation Ltd.

Place: New Delhi Date: 12.03.2021

(Manohar Balwani) **CGM & Company Secretary**

OSBI Corporate Centre, Stressed Assets Resolution Group, 2nd floor, Tower "4", The Arcade Building, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

SALE OF FINANCIAL ASSETS TO BANKS/ ARCs/NBFCs/FIs THROUGH e-AUCTION

State Bank of India invites bids from the Banks/ARCs/ NBFCs/Fls through e-Auction for sale of financial assets Banks/ARCs/NBFCs/Fls interested in bidding for buying such financial assets, to be showcased by the Bank from time to time. can participate in the bidding process after executing a non-disclosure agreement with the Bank, if not already executed. For execution of non-disclosure agreement with the Bank & other queries, if any, such interested Banks/ARCs/ NBFCs/Fls can contact on e-mail id-dqm.sr@sbi.co.in

State Bank of India invites Expression of Interest from Banks ARCs/NBFCs/Fls for the proposed sale of its Non Performing Assets (NPAs) comprising (08) financial assets with Total outstanding of ₹340.14 Crore. Interested prospective bidders are requested to intimate their willingness to participate in the e-Auction by way of an "Expression of Interest". Kindly visit Bank's Website at https://bank.sbi Click on link SBI In the news > Auction Notice > ARC AND DRT for further details.

Place: Mumbai **Deputy General Manager** Date: 13-03-2021

Stressed Assets Management Department Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

🟡 इण्डियन ओक्स्सीज़ बैंक Indian Overseas Bank

SALE OF SECURITY RECEIPTS (SRs) TO QIBs THROUGH e-AUCTION UNDER SWISS CHALLENGE METHOD

Indian Overseas Bank Invites financial quotes from QIBs for the proposed sale of SRs held under EARC (Edelweiss Asset Reconstruction Company) Trust SC 143 for account M/s Karaikal Port Pvt. Ltd for 11,26,113.75 no SRs with face value of Rs. 112.61 crores (Rs.1000/- per unit) under Swiss Challenge Method. Interested prospective bidders are requested to intimate their willingness to participate in the e-Auction scheduled on 26.03.2021 by way of an "Expression of Interest". For further details Kindly visit Banks's Website at www.iob.in Click on link TENDERS→Tenders→Tender information - Request For Quote (RFQ) from QIBs-Sale of SRs.

Godrej Consumer Products Limited

Godrej One, 4th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (E), Mumbai 400 079. Tel: 25188010/20/30, Fax: 25188040

nail: investor.relations@godrejcp.com , Website: www.godrejcp.com CIN: L24246MH2000PLC129806

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) is/are stated to be lost/misplaced/stolen and the registered holder(s) thereof/claimant(s) thereto has/have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s):

Folio Number	Name of the Shareholder	No. of Shares of Face Value Re 1/-	Distinctive Nos.		Old Cert No.			
K002759	K RAMDAS SHENOY	25	1082184851	1082184875	061295			
U001980	USHA PRABHAKAR PANDIT	120	0742214322	0742214441	0597797			
M006150	MAYANK TIWARI	60	0069194041	0069194100	0545363			
			0067752365	0067752484	0534913			
B001781	BHAGABHAI SOMABHAI PATEL	360	0740974797	0740974916	0587497			
			1081886104	1081886223	0610592			
R001806	RAJIV JASANI	240	0741784312	0741784431	0594124			
			1082551359	1082551478	0615935			
	PANCHAL SHANTILAL VITHALDAS							
0003672	PANCHAL SHANTIBEN SHANTILAL	48	0060361857	0060361904	0501655			
	PANCHAL CHANDRAKANT							
	SHANTILAL							
0014275	QURESHI ABDUL HAMID	180	0061274133	0061274312	0505954			
S008796	SURVA PATRA	480	0070384677	0070384916	0554764			
	SUNILKUMAR PATRA		0741952544	0741952783	0595706			
	HONEY DARYANANI							
H003205	LAL HATHIRAMANI	660	0068484213	0068484872	0540001			
P008098	PRASHANT RAMANLAL GANDHI	120	0069805641	0069805700	0550219			
	PRATIBHA RAMANLAL GANDHI		1082516179	1082516238	0615719			
P003206	PAWAN GOEL	40	0069656353	0069656392	0548731			
B002452	BISHWAJIT DAS	40	0067765905	0067765944	0535033			
In case any person has any claims in respect of the said shares/any objection(s) for the								

should lodge each claim or objection within 7 days of the date of publication of this notice. If within 7 days from the date hereof no claim is received by the company i respect of the said certificate, duplicate certificates will be issued. The public is hereb autioned against dealing in any way with the above-mentioned certificates

V Srinivasan Chief Financial Officer & Company Secretary

TMC, BJP leaders ask EC to probe 'attack' on Mamata



PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 12 March

A Trinamool Congress (TMC) delegation met the Election Commission (EC) on Friday and demanded a high-level probe into an alleged attack on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Nandigram and claimed it was not an "unfortunate incident", but a conspiracy.

Hours later, a BJP delegation, comprising Union Minister Piyush Goyal and party general secretary Bhupender Yadav, also met Election Commission officials and demanded an independent inquiry into the incident.

In a related development, Banerjee was discharged state-run SSKM from Hospital on Friday evening after doctors found her recovery to be "satisfactory".

Doctors took the decision after the 66-year-old TMC supremo repeatedly requested them to discharge her from the medical establish-

Banerjee, seated on a wheelchair with her left foot plastered, greeted several party activists gathered outside the Woodburn Block of the hospital.

▶ FROM PAGE

IIP slips...

"While we had anticipated deterioration in the IIP's performance in January 2021, we didn't expect it to revert to contraction. After a rapid recovery seen till October 2020, the trend in the IIP has turned volatile in the last three months, suggesting that the economy has entered into a consolidation phase with an underlying momentum that is relatively subdued," said Aditi Nayar, principal economist, ICRA Ratings, adding, "The IIP may continue to contract in February."

Consumer non-durables, comprising essential goods with a broadly non-elastic demand, contracted by 6.8 per cent in January, as against a 0.6 per cent decline a year ago. Consumer durables, comprising mainly white goods and mobile phones, saw 0.2 per cent contraction, as against 5.7 per cent growth in December and 3.7 per cent contraction last year. "We remain circumspect regarding the intensity of the rebound in consumption immediately after the vaccine roll-out widens, as some categories of households may choose to rebuild the savings that they had drained during the lockdown and post-lock-

down period," said Nayar. Madan Sabnavis, chief economist, CARE Ratings, said the negative growth in consumer goods was a major disappointment, "which was expected to be positive and hence is the surprise factor for us". The pent-up demand story has quite clearly paused as seen by these numbers, said Sabnavis, adding he expected growth to be negative in February but would turn positive in March as growth last year was down by 18 per cent.

The manufacturing category makes up 77 per cent of the index.

The capital goods sector contracted by 9.6 per cent, despite a very low base of 4.4 per cent contraction in January last year. While the mining sector posted 3.7 per cent contraction during the month, electricity grew by 5.5 per cent, indicating a pick-up in demand from factories.

The IIP data is released with a lag of six weeks and compiled with data received from 16 source agencies.

which, in turn, receive data from the producing factories

Of the 24 sub-sectors, only six sectors posted growth in January, with chemicals and chemical products growing by 3.1 per cent, rubber and plastic products by 6.3 per cent, and wood products other than furniture by 6.9 per cent. Wearing apparel, pharmaceuticals, and furniture sub-sectors saw contraction of 20.2 per cent, 11.5 per cent, and 18 per cent, respectively.

Weak growth and inflationry pressure in non-food articles may force the monetary policy committee of the Reserve Bank of India to accommodative. During the MPC meeting held in February, the RBI had left policy rates unchanged.

Maths, physics rule for...

"Today, classes 11 and 12 are water tight compartments where a student who goes to science stream will study only science. But in NEP, after 15 years of primary school education, the last four years will be generic where the candidate can go for UG studies across disciplines... So far, we have been working only in silos, building walls around us and not seeing beyond our domains. NEP has given a fresh opportunity and we are trying to make use of this... There is a new window being created where students who have not taken physics and maths in school can enter engineering education," said Sahasrabudhe.

The AICTE chairman said for the next academic session. maths and physics will still continue to be mandatory for under-graduate engineering programmes

"Mathematics, physics and chemistry will still continue to be important for engineering for majority disciplines, barring some exceptions like ceramics and textiles. However, there is a lot of flexibility in NEP going forward which has been brought into this handbook. JEE and state entrance exams (CETs) may continue to hold exams in maths and physics and admissions will be based on them," Sahasrabudhe added.

Citing the example of Tamil Nadu, Sahasrabudhe said there were states that

admitted students for engineering programmes on the and establishments. basis of standard 12th scores and not through state entrance exams. It is for such cases that the admission crite-

ria had been opened, he said. "However, it does not mean that they should do it, but it is just being allowed. This is not being enforced upon anyone but an opportunity is being created. We are just opening a new window of opportunity so that if any university or state wants to open up its engineering admissions based on NEP. they can do so" he said

Universities are seeing this as a welcome move since they agree such changes will anyway take time to be implemented across the country.

"The changes should be of help by and large. The respective board of studies at universities and colleges will have to make provisions accordingly. Immediately accepting this change in eligibility as early as possible will be a bit difficult, but we will try to change ourselves academically," said Visvesvaraya Technological University (VTU) registrar Anand Deshpande. One of the issues in such programmes where physics and maths are not required is that admissions are very scant, he pointed out, "As a result, there may not be any immediate change by a large margin in university curriculum but gradually there will be a change."

Voda Idea...

VIL has already paid ₹7,854 crore towards AGR dues, and will have to pay 10 per cent by the end of this month.

The bond issue comes at a time when VIL's net worth has completely eroded and its auditor has warned of material uncertainty on going concern of the company. The gross debt (excluding lease liabilities), as of September 30, 2020, was ₹1.16 trillion, including deferred spectrum payment obligations of ₹92,310 crore. The total debt servicing obligation between October and March-end is around ₹1,780 crore.

Petrol, diesel...

Diesel, on the other hand, saw the rate of price rise climbing to 22.50 per cent from 12.79 per cent. Diesel inflation had an

impact on other segments, too. The overall fuel and light inflation rate came down due

to other segments such as electricity, which saw its inflation rate coming down to 3.29 per cent in February from 3.60 per cent in January.

Sunil Kumar Sinha, principal economist at India Ratings, said the higher retail prices of fuel due to a combination of higher crude prices and elevated excise duties pushed transport and communication inflation to a four-month high of 11.4 per cent in February from 9.4 per cent in January. There are chances of food

items, which have about 47 per cent weighting in the a sumer price index, facing the indirect impact of high diesel prices. Govinda Rao, former director at the National Institute of Public Finance and Policy and now chief economic adviser at Brickwork Ratings, said: "Excess liquidity, combined with the volatility in fuel prices, can pose an upward risk to inflation."

If one takes out food and fuel, what is left is core inflation, which is often taken as a key part of the overall rate of price rise. This inflation rate was up at a three-month high of 5.86 per cent.

Rao said: "In this situation, the MPC is expected to continue the pause, though the RBI may take some measures to drain excess liquidity." The MPC is scheduled to meet in the first week of next month.

In its February review, the MPC had suggested the Union and state governments reduce taxes on petroleum products to provide some relief to customers, who are paying record high prices for fuel.

"Pump prices of petrol and diesel have reached historic highs. An unwinding of taxes on petroleum products by both the Centre and states could ease the cost-push pressures," the MPC had said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman had said the issue of tax burden on petroleum products was something that the Centre and states had to discuss as both drew revenue from these items. The Centre imposes both

flat and ad valorem rates on fuel. For instance, there is a 2.5 per cent Customs duty on unbranded petrol. Along with this, on every litre, there is a ₹14.90 countervailing duty, ₹18 additional Customs duty, ₹1.40 basic excise duty, ₹11 special additional excise duty, and ₹2.5 of newly imposed cess. However, there is no uniformity of taxes among states.



VARUN BEVERAGES LIMITED

(ARC)

Place: Mumbai

Date: 12/03/2021

NOTICE TO THE MEMBERS OF 26[™] ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

This is in continuation to our earlier communication dated March 10, 2021, whereby Members of Varun Beverages Limited ("Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/ P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Board of Directors decided to convene 26" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Wednesday, April 7, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 26" AGM.

The Notice of 26th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended December 31, 2020 along with login details for joining 26th AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Friday, March 12, 2021 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA and SEBI Circulars and the same are also available on Company's website (www.varunpepsi.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by NSDL on all resolutions set forth in the Notice of 26th AGM.

Remote e-voting shall commence on Sunday, April 4, 2021 (9.00 A.M. IST) and end on Tuesday, April 6, 2021 (5.00 P.M. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the

AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once the Member cast vote on a resolution, Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the

Notice of 26th AGM. Mr. Devesh Kumar Vasisht, failing him Ms. Priyanka, Partners of M/s. Sanjay Grover & Associates Company Secretaries, New Delhi, have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, March 31, 2021 ("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Any person, who acquires share(s) and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of 26th AGM and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 26th AGM or sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote.

If you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

Holdina

Physical | Please send a request to KFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent at einward.ris@kfintech.com, providing your name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card, for registering

Demat Please contact your DP and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, March 31, 2021 to Wednesday, April 7, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 26th AGM

The result of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM i.e. on or before April 9, 2021 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website (www.varunpepsi.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com).

If you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section at www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-1020-990/1800-224-430 of NSDL or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance connected with e-voting facility, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, E-mail: evoting@nsdl.co.in, Tel.:+91 22 24994545/1800-1020-990/1800-224-430.

For and on behalf of Varun Beverages Limited

Sd/-Ravi Batra

Chief Risk Officer & Group Company Secretary

Date: March 12, 2021 Place: Gurugram

सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ्लैट नंबर 96-D/B10A सेक्टर 34 नोएडा, जिसका मूल आवंटी लखमी चन्च पुत्र श्री तेज रामपाल R/o- K-4 सेक्टर 12 नोएडा है ने जीपीए के आघार पर श्री पी सुरेंद्रन S/o श्री पी माधवन R/o- A-124 सेक्टर , के पक्ष में GPA सब रजिस्ट्रार नोएडा मे दिनांक 5-4-1997 को पंजीकृत किया है उक्त फ्लैट 96D/B10A सेक्टर 34 को जीपीए बोल्डर पी सुरेंद्रन, थ्री सुलेश पी एस S/o श्री पी सुरेंद्रन के पैक्ष में अंतरण आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो कृपया नोएडा प्राधिकरण के भवन विभाग में समस्त साक्ष्यों सहित 15 दिन के अंदर आपत्ति दाखिल करें

यूको बैंक

अंचल कार्यालय, वसूली विमाग, पहली मंजिल 5 ससंद मार्ग, नई दिल्ली-110001 शिद्धिपत्र

यह विज्ञापन बिजनेस स्टैण्डर्ड हिन्दी दैनिक में दिनांक 10,03,2021 की प्रकाशित हुआ था। जिसमें नीलामी की विथि 29,03,2021 के स्थान पर 30.03.2021 पढ़ें। बांकि नियम व शर्ते समान्य रहेगी।

दिनांक : 12.03.2021 स्थान : नई दिल्ली पी सुरेंद्रन युको बैक 🕮 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर की सूचित किया जाता है सरफेरी अधिनिचम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति स्थित ''सम्पत्ति नं. 10, खसरा नं. 213-ए, गांव युसूफपूर उर्फ चाकसीवाडी, परगनाएवं तह. दादरी, गौत्तम बुद्द नगर, उ.प्र. ''को एयू स्मॉल् फाइनेंस बेंक द्वारा विक्रय कर दिया गया है। यदि आप द्वारा 7 दिवस के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान को जरिए नीलामी बैचान कर दिया जायेगा। जिस के खर्ची स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।सामान प्राप्त करने

ऋण खाता संख्या	ऋणी / सह-ऋणी/ बंधककर्ता/जमानतदार का नाम	नंपन प्रापित का विकास
ૠંગ સાતા સંસ્થા : L900106010060 5261	सुदर्शन बेहेरा पुत्र श्री बताकृष्ण बेहेरा (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती मगबती बेहेरा पत्नी श्री सुदर्शन बेहेरा (सह-ऋणी)	''सम्पत्ति नं. 10, खसरा नं. 213-प्, गांव यूस्फ्पुर वर्ण चाकसीवाडी, परगना एवं तह. दादरी, गौत्तम बुद्ध नगर, उ.प्र.'' क्षेत्रफल 87 वर्ग गज
दिनांक- 12-भार्च-2 स्थान - उत्तर प्रदेश	2021	s/d प्राधिकृत अधिकारी एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

CIN: L33301DL1988PLC033434 पंजीकृत कार्यालयः ई-10, लोक्षर ग्राचंड पलोर, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 दुरभाषः 011-41021297, ईमेल आईडी: investor,relations@timex.com वेबसाइट: www.timexindia.com सूचना

एतदद्वारा सृचना दी जाती है कि कंपनी के नीच उल्लेखित शयर सर्टिकिकट गुम हो चुके/खा चुके हैं:						
पंजीकृत शेयरधारकों शेयरों की सर्टिफिकेट विशिष्ट						
के नाम	सं.	संख्या	संख्या			
गुले राणा	200	94439	7291301-1400			
		96674	7514801-4900			
किशोर रत्नासय मनकेरमी/	200	3952	395101-200			
रजनी किशोर मनकेरमी		3953	395201-300			
के शिवारामाकृष्णन	100	4983	498201-300			

ऊपरोक्त शयरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई दावा अथवा अधिकार अथवा उनका हित निहित है एवं ऊपर उल्लेखित शेयर सर्टिफिकेटों के बदले में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने पर कोई आपित है, तो वे उसे इस सूचना की तारीख से सात दिनों के अंदर हलफनामा, क्षतिपृति/पुलिस शिकायत के जरिए अपने दावे अथवा अधिकार अथवा हित की प्रकृति अथवा अपनी आपत्ति के ब्यौरे का उल्लेख कर कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजंट - मैसर्स अलंकित असाइंनेट्स ਕਿਸਿਟੇਫ ਅਕੰਮਿਰ ਵਾਵਟਲ 4ਵੇਂ/2 ਅਕੰਮਿਰ ਵਾਚਲ ਵਾਫੇਗਕਾਰ ਸ਼ਰੂਸਟੇਂਗਰ ਰਵੇਂ ਟਿਕਰੀ-110055 दूरमाष 011-42541234 को सूचित करें, अन्यथा कंपनी पुनः कोई जानकारी दिए बिना तथा किसी मी प्रकृति के कोई भी दावे, चाहे कुछ भी हो, पर विचार किए बिना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आरम्भ कर देगी।

कृते टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड धीरज कुमार मग्गो स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 12/03/202 महाप्रबंधक-विधिक, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

Coforge Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019

Ph: 91 (11) 41029297 **Fax**: 91 (11) 26414900 Email: investors@coforgetech.com Website: https://www.coforgetech.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company i reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate: Cartificate No. of

No.	Registered holder	No.	Shares	Distinctive Nos.				
	PRATIK M DOSHI &	6928	28	39208267 - 39208294				
	PRASHANT N DOSHI							
Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to								
the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from								

date of this advertisement. The Company shall the reafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and

the Company shall not be responsible for it in any manner For and on behalf of Coforge Limited (erstwhile NIIT Technologies Limited)

Dated : March 12, 2021 Lalit Kumar Sharma Company Secretary & Legal Counse Place : New Delhi

संशोधन सूचना दिनांकितः 08.03.2021/10.03.2021 कब्जा सचना सरफेसी अधिनियम की परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

(अचल सम्पत्ति हेतु)

चूंकि, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बेंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहरताक्षरी द्वारा प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारो के प्रयोग के तहत दिनांक 14.12.2020 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार श्री धनस्थाम बतरा, श्री विराग बतरा, श्री निशी बतरा मैसर्स बतरा एच/डब्ल्य पेंटस एंड इलेक्टिकल स्टोर, गृह ऋण संख्या 51999277 को संबंधित सचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम रु. 2,05,23,803.23 (रुपये दो करोड़ पांच लाख तेईस हजार आठ सौ तीन एवं पैसे तेईस मात्र) चुकवा करने को कहा गया था।

कर्जदारों द्वारा उक्त रकम का भूगतान करने में असफल होने के कारण, एतदद्वारा कर्जदार एवं आम जनता को भुचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा 4 के साथ पाँठत प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2021 के 10 मार्च को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभृत सम्पत्ति को मृक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी रोाद। रु. 2,05,23,803,23 तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभार का विषय होगा

अचल सम्पत्ति का विवरणः

निम्नलिखित सम्पत्ति का सम्पर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा सं.: 146, दिल्ली हाउसिंग सीएचबीएस लि., अवतार एनक्लेव के नाम से ज्ञात, पश्चिम विहार दिल्ली-110063

हस्ता अधिकृत अधिकारी दिनांक: 13.03.2021 स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक स्थान : नई दिल्ली

MAWANA SUGARS LIMITED

CIN: L74100DL1961PLC003413 ered Office: 5th Floor, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, New Delhi-110 125 Tel.: 91-11-25739103, Fax: 91-11-25743659, Email: corporate@mawanasugars.com, Website

ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF POSTAL BALLOT

Pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, approval of the members was sought by means of Postal Ballot through the Remote E-voting system only in accordance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circulars No. 14/2020 dated 8" April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020 and 39/2020 dated 31th December, 2020 espectively on the proposed Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 9.2.2021. The Board of Directors of the Company had appointed Mr. Nirbhay Kumar of M/s Nirbhay Kumar & Associates, Practicing Company Secretary (C.P. No.7887) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process in accordance with the applicable laws in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer's has submitted his report dated 12.3.2021 to the Whole Time Directors of the Company. Based on the Scrutineer port dated 12.3.2021, results of the Postal Ballot was declared on 12.3.2021 at the Bagistered Office of the Co

S. No.	Particulars of Resolution	Type of Resolution	No. of Votes Cast	No. of Votes in Favour				Whether resolution passed or rejected
1.	To sell/dispose off one of Company's operating unit under the name and style of "Siel Chemical Complex" (SCC) situated at Villages Damanheri, Khandauli and Sardargarh, Tehshil Rajpura, District Patiala, Punjab ("the Undertaking").	Special	25914810	25913313	1497	99.99	0.01	Passed

The Special Resolution is deemed to have been passed on 12th March, 2021 being the last date specified by the Company for the remo

The Postal Ballot Results along with the Scrutinizer's Report has been hosted on the Company's website at www.mawanasugars.co

For Mawana Sugars Limite (Ashok Kumar Shukla Company Secretary ACS-29673

पंजाब मैशनल बैंक punjab national bank

and communicated to the stock exchanges

Place : New Delhi

Dated: 12.03.2021

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 8/1, प्रथम तल अब्दुल अजीज रोड़, डब्लू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, ईमेलः cs8334@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (4) के नियम 8 (1) के साथ पठित (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत (इसके बाद "कहा अधिनियम्" के रूप में सद्भित) के अधीन पं**जाब नेसनल बैंक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र, परिचमी दिल्ली करोल बाग** का प्राधिकृत अधिकृति होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (इसके बाद ''उक्त नियम' के रूप में संदर्भित कहा गया) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर सुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर / बंघककर्ता उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, उपरोक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि चुकाने के किए और इसलिए यह नोटिस कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नौच वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित दिनांक के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार, 'गारंटर / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन पंजाब नेशनल बैंक, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, शुल्क इत्यादि सहित के अधीन होगा।

豖.	खाते का नाम (कर्जदार/ गारंटर/बंधककर्ता)		बकाया राशि	मौँग सूचना की तारीख
सं.		बंघक सम्पत्तियां का विवरण	(रू. में)	कब्जा सूचना की तारीख
1	कृष्णा रियलबिल्ड प्रा. लि.			03-09-2020
	ऋण खाता नं. 11164011000438 और 11167011000279	संपकरण दृष्टिबंधक 2. संपत्ति पर भवन का निर्माण, क्षेत्रफल 22 कनाल, 13 भारता अर्थात 2.83 एकड़, खेवत नं. 242/240, खाता नं. 356, रैक्ट और किला नं. 30/4/1(6-13), 30/5(8-0), 30/6(8-0) गाँव कुसुमपुर के रेवेन्यू इंस्टेट में, तहसील और जिला सोमीपत, हरियाणा में स्थित	08.2020 तक और नविष्य का ब्याज, लागत और खर्चे इत्यादि सहित	09-03-2021
2		न्यू लाईक फ्लोर दृष्टिबंधक स्टॉक और प्लांट एवं स. 59,32,747.68 (इ. बनसव ला	ক. 59,32,747.68 (চ. ব দ্মত লাজ	18-11-2020
	मिल्स् इसके प्रोपराईटर श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री कृष गुप्ता निवासीः खसप नं. 213, मांगली शकरावती नज़फगढ़, नई दिल्ली और आरजेड — 35/311, गली नं. 10वी, इंदिरा पार्क, पार्शन कॉलोनी, नई दिल्ली. खाता नं. 4888001B00000100	शकरावत, नज़फगढ़, नई दिल्ली में स्थित	पैस अंबस्त मात्र) दिनांक 28.02. 2021 तक और मविष्य का ब्याज, सागत और खर्चें इत्यादि सहित	10-03-2021
3	श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री	दृष्टिबंधक Honda City 1.5 SV MT i-	फ. 4,33,637.00 (रु. चार लाख तैतीस	18-11-2020
	बृज लाल गुप्ता, ानवासाः आरजेड — 35/311, गली नं. 10बी, इंदिरा पार्क, पालम	VTEC जिसका पंजीकरण नं. DL3CCL2388	हजार छः सौ सैतीस मात्र) दिनांक 28. 02.2021 तक और मविष्य का ब्याज, लागत और खर्चें इत्यादि सहित	10-03-2021

	4888001B00000063 & 4888001B00000100		1.	
3	श्रीमती कुसुम गुप्ता पत्नी श्री बृज लाल गुप्ता, निवासीः आरजेंड — 35/311, गली नं. 10वी, इंदिरा पार्क, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली, खादा नं. 488800NG00000191	दृष्टिकंघक Honda City 1.5 SV MT I- VTEC जिसका पंजीकरण नं. DL3CCL2388	स्त. 4,33,637.00 (फ. चार लाख सैतीस हजार छ: सौ सैतीस मात्र) दिनांक 28. 02.2021 तक और शविष्य का ब्याज, लागत और खर्चें इत्यादि सहित	18-11-2020 10-03-2021
4	श्री राजवीर पुत्र श्री रमेश सिंह गौतम और श्रीमती	रिहाथशी फ्री होल्ड सम्पत्ति सम्पूर्ण तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, फ्लैट नं,	रू. 11,04,958.64 (रु. ग्यारह लाख चार हजार नौ सौ अझवन और पैसे	26-10-2020
		107, ब्लॉक बी, पॉकेट-7, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री राजवीर पुत्र श्री रमेश सिंह गौतम के नाम पर है।		10-03-2021
5		रिहायशी फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति फ्लैट नं. एफ-1, प्लॉट नं. जी-69, प्रथम तल		29-10-2020
	भोहम्भद जावेद पुत्र श्री	बिना छत के अधिकार के, दिलशाद एक्सटेंशन नं. 1, जिसे अब दिलशाद कॉलोनी कहते हैं, गाँव डिलमील क्षेत्र में, ताहीरपुर शाहदरा, दिल्ली—110095 में स्थित, क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री सारंश नंदा के नाम पर है।	पैसे चौवन मात्र) दिनांक 28.02.2021 तक और भविष्य का ब्याज, लागत	09-03-2021
6		र्श पुष्टिबंबक Hyundai Xcent VTVT 1, जिसका पंजीकरण नं DL8CAE7839	पच्चपन हजार आठ सौ छियासठ और	29-10-2020
8 9	प्लॉट नं. ६९, प्रथम तल, दिल शाद कों लो नी दिल्ली—110095, खाता नं. 01396515001425	09-03-2021		
7	भीखम महतो निवासी : 69,			03-02-2020
	द्वितीय भंजिल, गली नं. 4, गांव पालभ, भहावीर एन्वलेव, नई दिल्ली—110045, खाता नं. 18486011000168	अर्थात 40 वर्ग गज, खसरा नं. 86/1 में	तक और भविष्य का स्याज, लागत	10-03-2021



पत्नी श्री खमेश महतो के नाम पर

दिनांक : 10-03-2021, स्थान : नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी **पंजाब नैशनल बँक**, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभृतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पूर्नगठन एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नौटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणी व आम जनता को सुचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिथा है । उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति क्षे साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, संबंधित शाखाओं** के प्रभारों के अधीन होगा। ''उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है 🖡

	(-)	P O T T II P O T T II T II T II T II T I			
東東	शाखा एवं ऋणी / गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की विथि	बकाया राशि	पजेशन की तिथि
1.	शाखा कार्यालयः बेरीबाग. सहारनपुर	एक पश्चिम पेसिंग आवासीय मकान नं0 24 का भाग, प्रथम फैस			05.03.2021
	ऋणीः श्री पुनित सेठी पुत्र बलदेव राज	माप क्षेत्रफल 220.77 वर्ग गज या 184.59 वर्ग मीटर खसरा नं0 43 सभी अधिकार स्थित मोहम्मदपुर माफी बैरून दर आबादी पंत विहार	4 0 m	12,78,925	
	सेठी, श्रीमती आशा सेठी पत्नी श्री	कॉलोनी, फेस प्रथम, सहारनपुर। सम्पत्ति स्वामी पुनित सेठी पुत्र श्री		दिनांक 02.07.2019	
	बलदेव राज सेठी एवं श्री बलदेवी राज सेठी पुत्र श्री नन्द लाल सेठी, निवासीः	बलदेव राज सेठी एवं श्रीमती आशा सेठी पत्नी श्री बलदेवी राज सेठी		02.07.2019 तक	
	24. फेस-1∕ए. पंत विहार कॉलोनी.	डीड दिनांक 30.06.2009, बही नंध 1, जिल्द नंध 1621, पेज नंध 163-192, क्र0संध 3123 पर पंजीकृत है। सीमार्थे:- पूर्वः ओ0पी0		+ ब्याज व	
	डिज्नी लैंड स्कूल से पहले, आईटीसी	सैनी, पश्चिमः 25 फीट चौडा रास्ता, उत्तरः अन्य का प्लौट नं0 23,		अन्य खर्चे	
	रोड, सहारनपुर- 247001	दक्षिणः धनीराम का मकान।			
2.	शाखाः दिल्ली रोड. सहारनपुर	मकान लोन- एक पश्चिम फेसिंग डबल स्टोरी आवासीय मकान, माप		स्ता 19,48,987.64	05.03.2021
	ऋणीः श्री इस्तखार अहमद एवं	113.33 वर्ग गज या 94.75 वर्ग मीटर- प्लॉट नं0 35, सम्राट विक्रम कॉलोनी, 62 फीता रोड, सहारनपुर, सीमार्येः- पूर्वः 15 फीट चौडा		दिनांक	
	श्रीमती शाहनुमा	रास्ता, पश्चिमः सङ्क पुख्ता नाली पटरी, उत्तरः अन्य की सम्पत्ति-		01.11.2020 तक + ब्याज व	. T.
		प्लॉट नं0 34, दक्षिणः प्लॉट नं0 36।		अन्य खर्चे	d
हिः	गंक—12.03.2021	स्थानः सहारनपुर	प्राधिकत	अधिकारी पंजाब	नैशनल बैंक



द जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड

लय (उत्तरी) प्लॉट सं. 132-134 सेक्टर 44, गुरुग्राम (हरियाणा) भारत जीएसटीआईएन : 06AAACT6167G1ZB

दरभाष : +91 (0)0124-4715800 फैक्स : +91 (0)0124-4715800 ई-मेल : iapmd.del@jkbmail.com वेब : www.jkbank.net र्बाधत आस्ति पोर्टफोलियो प्रबन्धन विभाग

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1) देखें]

जबकि अधीहस्ताक्षरी के पूर्ववर्ती ने वित्तीय आस्तियों के प्रातभूतिकरण एवं पुनानेंगीण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जम्म एण्ड कश्मीर वैंक का अधिकृत प्राधिकार होने के नाते निम्नालखित कर्जदार/रों को सचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए माँग सूचनाएँ निर्गत की थी, कर्जदार राशि का पुनर्मुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार राशि को तथा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित निथमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर 10.03.2021 को कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/रों की ओर निम्नलिखित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिए द जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बीय : गाजियाबाद) के प्रभार का

प्रतिभृत आस्तियों को छड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/जमानतियों का ध्यान अधिनयम की धारा 13 की उपधारा (8) के पावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार

क्र.	कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों के नाम	बंधक सम्पत्ति/यो का विवरण	माँग सूचना की तिथि	कर्जदार से बकावा राशि एवं				
सं.			एवं र्साश	01.03.2021 में भावी लागते, व्याज एव किवे गर्वे/किये जाने वाले अन्य व्यव				
1.	(1) मैसर्स अंश एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. ए-16, शालीमार गार्डन एकस्टरेंशन II, गाजियाबाद, उ.प्र. (2) श्री जवाहर लाल कनुए पुत्र श्री संसार चंद निवासी 566, प्रथम तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन I, गाजियाबाद, उ.प्र. (प्रोपराइटर) (3) विनोद कुमार कनुए पुत्र जवाहर लाल कनुए निवासी 7/76, सेक्टर 2, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद (बंधककर्ता) (4) श्री शकेश कुमार कनुए पुत्र श्री जवाहर लाल कनुए निवासी 566, प्रथम तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन I, गाजियाबाद, उ.प्र. (जमानती) पुक्र राधान मदार प्रातीमार गार्डन एक्सटेंशन II, गाजियाबाद, उ.प्र. (जमानती)	अधिकार रहित (सन्यक्ति का कवर्ड एरिया 57.226 वर्ग मीटर), भहापुन एस्टेट-VII में, प्लॉट सं. ए-10 पर निर्मित, आवाशी कॉलोनी, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, पर स्थित, राजस्य ग्राम पसींदा, परगना लौनी, तहसील	र्साश : रु. 20,89,567.47 (रुपये बीस लाख नवासी हजार पाँच सौ सड़सठ एवं सैंतालीस पैसे मात्र)	बकाथा राशि : 28.02.2021 तक रु. 45,20,028.47 (रुपये पैतालीस लाख बीस हजार अटटाईस एवं सैतालीस पैसे मात्र) तथा भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।				
2,	(1) नेसर्स पनुन एसोसिएटस, दुकान नं. 3 बी-22, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन II, गाजियाबाद, उ.प्र. (2) श्रीमती सोने कनुए पत्नी श्री विनोद कुमार कनुए निवासी 776, सेक्टर 2, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद (प्रीपराइटर) (3) विनोद कुमार कनुए पुत्र जवाहर लाल कनुए निवासी 776, सेक्टर 2, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद (बंधककर्ता) (4) श्री राकेश कुमार कनुए पुत्र श्री जवाहर लाल कनुए निवासी 566, प्रथम तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन I, गाजियाबाद, उ.प्र. (जमानती) (5) श्री जवाहर लाल कनुए पुत्र श्री संसार चंद निवासी 566, प्रथम तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन I, गाजियाबाद, उ.प्र. (जमानती)	अधिकार रहित (सन्यक्ति का कवर्ड एरिया 57.226 वर्ग मीटर), महागुन एस्टेट-VII में, प्लॉट सं. ए-10 पर निर्मित, आधाशीथ कॉलोनी, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, पर स्थित, राजस्य ग्राम पसाँदा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद के तहत।	एवं राशि : रु. 47,83,191.48 (रुपये सैंतालीस लाख तिरासी हजार एक सौ इक्यानबे एवं अड़तालीस पैसे मात्र)	बकाया यशि : 28.02.2021 तक रु. 1,39,57,237.48 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख सचावन हजार दो सौं सेंतीस एवं अड़तालीस पैसे मात्र) तथा भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।				
स्थ	स्थान : गाजियाबाद, तिथि : 10.03.2021 अधिकृत प्राधिकारी, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड							



वरूण बेवरेजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ 2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज्—1, नई दिल्ली—110020; दूरमाम +91 11 41706720 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 31, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर — 44, गुरूग्राम — 122002 (हरियाणा) ईमेलः complianceofficer@rjcorp.in वैबसाइटः www.varunpepsi.com, दूरमाषः +91 124 4643100 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC069839

26वीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तक बंद तथ। ई-वोटिंग जानकारी की सदस्यों को सूचना

यह हमारे द्वारा पहले दिनांक 10 मार्च, 2021 के संचार में, जिसके अन्तर्गत वरूण बेवरेजेज़ लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसी के अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में और संबंधित सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमन, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियमन"] के साथ पठित कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 तथा 13 जनवरी 2021 को जारी आम परिपन्न संख्या 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 और 02 / 2021 ("एमसीए परिपत्रों") तथा भारतीय प्रतिभृति और विनियमन बोर्ड के दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी 2021 परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 क्रमशः ("सेबी परिपत्रों") के अन्तर्गत निदेशक मंडल ने सदस्यों की 26वीं आम बैठक ("एजीएम") को बुधवार, 7 अप्रैल, 2021 को प्रातः 11 बजे (भारतीय मानक समय), सदस्यों की आम स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो वीजुवल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा द्वारा 26वीं एजीएम सूचना में दिए गए व्यवसायों को प्रस्तावित करने का निश्चित किया है।

शामिल होने के लिए लॉग इन विवरण के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 26वीं एजीएम की सूचना शुक्रवार, 12 मार्च 2021 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी है। ये सब कम्पनी की वेबसाइट (www.varunpepsi.com) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियमन की विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा

एमसीए तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित

डिपॉजटरी प्रतिभागियाँ ("डीपी") के पास पंजीकृत है उन्हे ई—वोटिंग के साथ वोसी / ओएवीएम सुविधा द्वारा 26वाँ एजीएम में

जारी सचिवीय मानक-2 तथा एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, 26वीं एजीएम सूचना में दिए गए संकल्पों पर इलेक्ट्रोनिक के माध्यम से मतदान करने के लिए एनएसडीएल द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई- वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है।

रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 4 अप्रैल 2021 (पूर्वाह 9:00 भारतीय मानक समय) को प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार 6 अप्रैल 2021 (संध्या 5:00 भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान इलेक्टानिक माध्यम से कर सकते है। तद्उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग मोड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान करने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर दिया है वे भी वीसी / ओएवोएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं पर वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई—वोटिंग सुविधा द्वारा पुनः मतदान नहीं कर सकते।

एक बार सदस्य एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई—वोटिंग, एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के विस्तृत निर्देश 26वों एजीएम की सूचना में प्रदान किय

श्री देवेश कुमार विसष्ठ या उनकी अनुपर्स्थिति में सुश्री प्रियंका, पार्टनर्स, संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को वोटिंग अधिकार बधवार, 31 मार्च, 2021 ("कट ऑफ तिथि") को कंपनी के पेड—अप इक्विटी शेयर पंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट—ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में उल्लेखित है, वह ही केवल एजीएम में शामिल होने के लिए अधिकृत होगा, रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, इस नोटिस को केवल सचना जानकारी के उद्देश्य से समझें।

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रानिक प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के शेयरों को अधिग्रहित करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयरों का स्वामित्व रखता है, वह 26वीं एजीएम के सूचना में लिखे हुए निर्देशों का पालन कर अपना लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@nsdl.co.in पर आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वर्तमान का युजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर मतदान कर सकता है।

यदि आपने कम्पनी / डीपी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो निम्न निर्देशों का पालन कर ई–वोटिंग के लिए

ई-मेल पते को पंजीकरण कराने के लिए कृप्या एक निवेदन केफिन टेक्नोलोजिज प्रा. लि. (पूर्व में कार्वी फिनटेक

से धारित करते हुए

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

प्रा. लि.), रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांस्फर एजेंट को einward.ris@kfintech.com पर अपना नाम, फोलियो संख्या, शेयर प्रमाण पत्र (आगे और पीछे) की स्कैन प्रतिलिपि, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि और आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रतिलिपि भेजें।

डीमैट रूप से घारित करते हुए

दिनांकः मार्च 12, 2021

स्थानः गुरुग्राम

कृप्या अपने डीपी से संपर्क करें तथा डीपी की सलाह अनुसार प्रक्रिया अपनाकर अपने डीमैट खाते में अपने ई—मेल पते को पंजीकृत करायें।

इसके साथ, अधिनियम की धारा 91 तथा इसके तत्वाधन में नियम और सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तक बुधवार, 31 मार्च, 2021 से बुधवार, 7 अप्रैल, 2021 (दोनों दिवस सम्मिलित) 26वीं एजीएम के कारण बंद रहेंगी।

एजीएम के समापन से 48 घंटों के भीतर अर्थात 9 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले परिणाम घोषित किया जाएगा और घोषित परिणाम समेकित पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट (www.varunpepsi.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर

ई—वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए, कृप्या www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा शेयर धारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा एनएसडीएल के टॉल फ्री न. 1800—222—990 / 1800—224—430 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.co.in पर एक निवंदन भेंजे। ई—वोटिंग सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या के लिए, कृप्या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, चतुर्थ तल 'ए' ट्रेड व्लर्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई-400 013, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in फोन नं. +91 22 2499 4545 / 1800-222-990 / 1800-224-430 पर संपर्क करें।

के लिए और की तरफ से वरुण बेवरेजेज लिमिटेड

5 tal. /-

रवि बत्रा मुख्य जोखिम अधिकारी एवं समूह कंपनी सचिव

Business Standard Insight Out

खबरें जो बढाए आपकी तरक्की की रफ्तार SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in